



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 1983/फाल्गुन 3, 1904

No. 84] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 1983/PHALGUNA 3, 1904

इस भाग में भिन्न पन्त संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1983

धन-कर

का०अ० 130(अ):—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धन-कर नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-कर (संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1983 से प्रवृत्त होंगे।

2 धन-कर नियम, 1957 के प्रारूप के हैं:—

(क) भाग 1 में:—

(i) खण्ड क में, मद (1) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(i) कृषि भूमि—उपाबंध I/उपाबंध II के अनुसार”,

(ii) अन्त में निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात्

“*कृषि उपाबंध II के नीचे के टिप्पण देखें”;

(ख) उपाबंध I के शीर्षक में “जो किसी चाय, काफी, रबड़ या इलायची बागान में मिलकर बनी है” शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ग) उपाबंध II में:—

(i) शीर्षक में “जो किसी चाय, काफी, रबड़ या इलायची बागान में मिलकर बनी है” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) पहले टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्:—

“जहां विवरणों का संबंध:—

(i) 1970-71 से लेकर 1980-81 तक के किसी भी निर्धारण वर्ष से है वहां सभी कृषि भूमियों के व्योरे विवरण में दिखाए जाने चाहिए;

(ii) 1971-72 से लेकर 1976-77 तक के किसी भी निर्धारण वर्ष से है वहां नगरीय क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमियों के व्योरे भी विवरण में अलग-अलग दिखाए जाने चाहिए;

(iii) निर्धारण वर्ष 1981-82 या निर्धारण वर्ष 1982-83 से है वहां चाय, काफी, रबड़ या इलायची बागान में समाविष्ट कृषि भूमियों के व्योरे विवरण में दिखाए जाने चाहिए;

(iv) निर्धारण वर्ष 1983-84 से है वहां कृषि भूमियों के व्योरे भाग 4 में दिखाए जा सकने हैं”,

(घ) उपबंध VI में, क्रम संख्या 16 में “20,000 रु” अंकों और सक्षेपाक्षर का संत किया जाएगा।

[सं० 5096 (फा०सं० 142(10)82-टी०प्ल०एन०)]

बी० डी० वाखरकर, सचिव
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

टिप्पण

मूल नियम अधिसूचना सं० सा०का०नि० 3384 तारीख 18-10-57 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए, फा०आ०सं० 271 तारीख 27-1-61, 798 तारीख 30-4-63, 1473 तारीख 28-9-64, 2064 तारीख 4-6-68, 2432 तारीख 2-7-68, 1026 तारीख 10-3-70, 2881 तारीख 1-9-70, 2882 तारीख 1-9-70, 999 तारीख 26-2-71, 165 तारीख 25-2-72, 437 तारीख 21-6-72, 707 तारीख 15-11-72, 154 तारीख 17-3-73, 187 तारीख 31-3-73, 327 तारीख 4-6-73, 21 तारीख 4-1-74, 599 तारीख 8-10-74, 726 तारीख 19-12-74, 739 तारीख 30-12-74, 559 तारीख 30-9-75, 147 तारीख 1-3-76, 267 तारीख 31-3-76, 702 तारीख 3-11-76, 732 तारीख 15-11-76, 16 तारीख 12-1-77, 166 तारीख 15-2-77, 721 तारीख 14-10-77, 434 तारीख 7-7-78, 554 तारीख 11-9-78, 169 तारीख 30-3-79, 610 तारीख 29-10-79, 41 तारीख 19-1-80, 75 तारीख 28-1-80, 119 तारीख 20-2-81, 397 तारीख 30-5-81 और 493, तारीख 19-6-81।

MINISTRY OF FINANCE

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 1983

WEALTH-TAX

S.O. 130(E):—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Wealth-tax Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Wealth-tax (Amendment) Rules, 1983.
- (2) They shall come into force on the 1st day of April, 1983.
2. In the Wealth-tax Rules, 1957, in Form A,—
 - (a) in Part I,—
 - (i) in Section A, for item (I), the following item shall be substituted, namely:—

“(1) Agricultural lands—as per Annexure I/Annexure II”

(ii) the following Note shall be added at the end, namely:—

“*Please see Notes below Annexure II”;

(b) in Annexure I, in the heading, the words “comprised in any tea, coffee, rubber or cardamom plantation” shall be omitted;

(c) in Annexure II,—

(i) in the heading the words “comprised in any tea, coffee, rubber or cardamom plantation” shall be omitted;

(ii) for the first Note, the following Note shall be substituted namely:—

“Where the return relates to—

(i) any of the assessment years 1970-71 to 1980-81, details of *all* agricultural lands should be shown in the statement;

(ii) any of the assessment years 1971-72 to 1976-77, details of agricultural lands situated in urban areas and other areas should also be shown separately in the statement;

(iii) the assessment year 1981-82 or the assessment year 1982-83, details of agricultural lands comprised in tea, coffee, rubber or cardamom plantation should be shown in the statement;

(iv) the assessment year 1983-84, details of agricultural lands may be shown in Part IV.”;

(d) in Annexure VI, in serial number 16, the abbreviation and figures “Rs. 20,000” shall be omitted.

[No. 5096(F.No. 142(10)/82-TPL)]

V. D. WAKHARKAR, Secretary
Central Board of Direct Taxes

NOTE: Principal rules were published under Notification No. S.R.O. 3384 dated 18-10-1957 and subsequently amended by S.O.No. 271 dated 27-1-1961, 798 dated 30-4-1963, 1473 dated 28-9-1964, 2064 dated 4-6-1968, 2432 dated 2-7-1968, 1026 dated 10-3-1970, 2881 dated 1-9-1970, 2882 dated 1-9-1970, 999 dated 26-2-1971, 165 dated 25-2-1972, 437 dated 21-6-1972, 707 dated 15-11-1972, 154 dated 17-3-1973, 187 dated 31-3-1973, 327 dated 4-6-1973, 21 dated 4-1-1974, 599 dated 8-10-1974, 726 dated 19-12-1974, 739 dated 30-12-1974, 559 dated 30-9-1975, 147 dated 1-3-1976, 267 dated 31-3-1976, 702 dated 3-11-1976, 732 dated 15-11-1976, 16 dated 12-1-1977, 166 dated 15-2-1977, 721 dated 14-10-1977, 434 dated 7-7-1978, 554 dated 11-9-1978, 169 dated 30-3-1979, 610 dated 29-10-1979, 41 dated 19-1-1980, 75 dated 28-1-1980, 119 dated 20-2-1981, 397 dated 30-5-1981 and 493 dated 19-6-1981.